



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 338) पटना, बुधवार, 2 अप्रील 2014

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

02 अप्रील 2014

सं0 बी1-3-72/2014-19—लोक सभा का आम निर्वाचन, 2014 के अवसर पर 6-मधुबनी, 7-झंझारपुर, 13-मधेपुरा, 14-दरभंगा, 23-समस्तीपुर (अ0जा0), 24-बेगूसराय, एवं 25-खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 02.04.2014 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-464/2014 (7) दिनांक 02.04.2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

हुसैन युसूफ रिजवी,

संयुक्त सचिव।

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2014/चैत्र 12, 1936 (शक)

का. आ. -----(अ)-पंद्रहवीं लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है-

अतः अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-14 की उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में यथाविनिष्ट आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव यथास्थिति, तत्स्थानी राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं:

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (1) | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2) |
|-------------------------------|--------------------------------|
| आंध्र प्रदेश | 1-अदिलाबाद (अ. ज. जा.) |
| | 2- पेड़ुडापल्ली (अ. जा.) |
| | 3- करीमनगर |
| | 4- निजामाबाद |
| | 5- जहीराबाद |
| | 6-मेडक |
| | 7-मलकाजगिरी |
| | 8-सिकन्दराबाद |
| | 9-हैदराबाद |
| | 10-चेवल्ला |
| | 11-महबूबनगर |
| | 12-नगरकूरनूल (अ. जा.) |
| | 13- नलगोडा |
| | 14- भोंगीर |
| | 15-वारंगल (अ. जा.) |
| | 16-महबूबाबाद (अ. ज. जा.) |
| | 17-खम्माम |
| बिहार | 6-मधुबनी |
| | 7-झंझारपुर |
| | 13-मधेपुरा |
| | 14-दरभंगा |
| | 23-समस्तीपुर (अ. जा.) |
| | 24-बेगुसराय |
| | 25-खगड़िया |
| गुजरात | 1-कच्छ (अ. जा.) |
| | 2-बनासकांठा |
| | 3-पाटन |
| | 4-मेहसाना |
| | 5-साबरकंथा |
| | 6-गांधीनगर |
| | 7-अहमदाबाद (पूर्व) |
| | 8-अहमदाबाद (पश्चिम) (अ. जा.) |

| | |
|---------------|----------------------------|
| | 9-सुरेन्द्रनगर |
| | 10-राजकोट |
| | 11-पोरबंदर |
| | 12-जामनगर |
| | 13-जूनागढ़ |
| | 14-अमरेली |
| | 15-भावनगर |
| | 16-आनंद |
| | 17-खेड़ा |
| | 18-पंचमहल |
| | 19-दाहोद (अ. ज. जा.) |
| | 20-बड़ोदरा |
| | 21-छोटा उदयपुर (अ. ज. जा.) |
| | 22-भरुच |
| | 23-बारदोली (अ. ज. जा.) |
| | 24-सूरत |
| | 25-नवसारी |
| | 26-वलसाढ़ (अ. ज. जा.) |
| जम्मू-कश्मीर | 2-श्रीनगर |
| पंजाब | 1-गुरदासपुर |
| | 2-अमृतसर |
| | 3-खादूर साहिब |
| | 4-जालंधर (अ. जा.) |
| | 5-होशियारपुर (अ. जा.) |
| | 6-आनंदपुर साहिब |
| | 7-लुधियाना |
| | 8-फतेहगढ़ साहिब (अ. जा.) |
| | 9-फरीदकोट (अ. जा.) |
| | 10-फिरोजपुर |
| | 11-भटिंडा |
| | 12-संगरूर |
| | 13-पाटियाला |
| उत्तर प्रदेश | 29-धौरहरा |
| | 30-सीतापुर |
| | 32-मिश्रिख (अ. जा.) |
| | 33-उन्नाव |
| | 34-मोहनलालगंज (अ. जा.) |
| | 35-लखनऊ |
| | 36-राय बरेली |
| | 43-कानपुर |
| | 45-जालौन (अ. जा.) |
| | 46-झांसी |
| | 47-हमीरपुर |
| | 48-बांदा |
| | 49-फतेहपुर |
| | 53-बाराबंकी (अ. जा.) |
| पश्चिमी बंगाल | 25-हावड़ा |
| | 26-उलुबेरिया |
| | 27-श्रीरामपुर |
| | 28-हुगली |
| | 29-आरामबाग (अ. जा.) |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| | 38-बर्धमान पूर्व0 (अ. जा.) |
| | 39- बर्धमान-दुर्गापुर |
| | 41-बोलपुर (अ. जा.) |
| | 42-बीरभूम |
| दादरा और नागर हवेली | 1-दादरा और नागर हवेली (अ. ज. जा.) |
| दमन और दीव | 1-दमन और दीव |

पी0के0मल्होत्रा,
सचिव, भारत सरकार
[फा.सं.एच.11024(2)/2014-विधायी II]

Ministry of Law and justice
Legislative Department

Notification

New Delhi, the 2nd April, 2014/Chaitra 12, 1936 (Saka)

S.O. —(E) Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the people, on the expiration of the term of fifteenth House of the people;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 14 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union territories, as the case may be, of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Jammu & Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu as specified in column (1) of the said Table, to elect members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and order made there under:

| State/Union territory | Parliamentary constituency |
|-----------------------|----------------------------|
| (1) | (2) |
| ANDHRA PRADESH | 1- Adilabad (ST) |
| | 2- Peddapalle (SC) |
| | 3- Karimnagar |
| | 4- Nizamabad |
| | 5- Zahirabad |
| | 6- Medak |
| | 7- Medak |
| | 8- Secunderabad |
| | 9- Hyderabad |
| | 10- Chevella |
| | 11- Mahbubnagar |
| | 12- Nagarkurnool (SC) |
| | 13- Nalgonda |
| | 14- Bhongir |
| | 15- Warangal (SC) |
| | 16- Mahabubabad (ST) |
| | 17- Khammam |
| BIHAR | 6- Madhubani |
| | 7- Jhanjharpur |
| | 13- Madhepura |
| | 14- Darbhanga |
| | 23- Samstipur (SC) |
| | 24- Begusarai |
| | 25- Khagaria |
| GUJARAT | 1- Kachchh (SC) |
| | 2- Banaskantha |
| | 3- Patan |
| | 4- Mahesana |

| State/Union territory | Parliamentary constituency |
|------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) |
| | 5- Sabarkantha |
| | 6- Gandhinagar |
| | 7- Ahmedabad East |
| | 8- Ahmedabad West (SC) |
| | 9- Surendranagar |
| | 10- Rajkot |
| | 11- Porbandar |
| | 12- Jamnagar |
| | 13- Junagadh |
| | 14- Amreli |
| | 15- Bhavnagar |
| | 16- Anand |
| | 17- Kheda |
| | 18- Panchmahal |
| | 19- Dahod (ST) |
| | 20- Vadodara |
| | 21- Chhota Udaipur (ST) |
| | 22- Bharuch |
| | 23- Bardoli (ST) |
| | 24- Surat |
| | 25- Navsari |
| | 26- Valsad (ST) |
| JAMMU & KASHMIR | 2- Sarinagar |
| PUNJAB | 1- Gurdaspur |
| | 2- Amritsar |
| | 3- Khadeor Sahib |
| | 4- Jalandhar (SC) |
| | 5- Hoshiarpur (SC) |
| | 6- Anandpur Sahib |
| | 7- Ludhiana |
| | 8- Fatehgarh Sahib (SC) |
| | 9- Faridkot (SC) |
| | 10- Firozpur |
| | 11- Bathinda |
| | 12- Sangrur |
| | 13- Patiala |
| UTTAR PRADESH | 29- Dhaurahra |
| | 30- Sitapur |
| | 32- Misrikh (SC) |
| | 33- Unnao |
| | 34- Mohanlalganj (SC) |
| | 35- Lucknow |
| | 36- Rae Bareli |
| | 43- Kanpur |

| State/Union territory | Parliamentary constituency |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) |
| | 45- Jalaun (SC) |
| | 46- Jhansi |
| | 47- Hamirpur |
| | 48- Banda |
| | 49- Fatehpur |
| | 53- Barabanki (SC) |
| WEST BENGAL | 25- Howrah |
| | 27- Uluberia |
| | 28- Hooghly |
| | 29- Arambag (SC) |
| | 38- Bardhaman Purba (SC) |
| | 39- Burdhaman-Durgapur |
| | 41- Bolpur (SC) |
| | 42- Birbhum |
| DADRA & NAGAR HAVELI | 1- Dadra & Nagar Haveli (SC) |
| DAMAN & DIU | 1- Daman & Diu |

P.K. Malhotra,
Secretary to the Government of India
[F.H- 11024 (2)/2014- Leg. II]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक 02 अप्रैल, 2014/12 चैत्र, 1936 (शक)

सं० 464/2014(7)-यतः भारत के राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-14 की उप-धारा (2) के अधीन जारी और दिनांक 02 अप्रैल, 2014 (बुधवार) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाए-

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा-30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा-

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्न रूप से नियत करता है-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख

-09 अप्रैल, 2014 (बुधवार)

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख

-10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)

(ग) अम्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख

-12 अप्रैल, 2014 (शनिवार)

(घ) अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनु रूप प्रविष्टी में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा, और

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व उक्त उल्लिखित संसदीय

-28 मई, 2014 (बुधवार)

निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा, और

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को निर्वाचन के लिए मतदान होगा।

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दिनांक तथा मतदान का समय

| संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम | मतदान की तारीख | मतदान का समय |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1-आन्ध्र प्रदेश | | |
| 1-आदिलाबाद (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | | |
| 1-सिरपुर वि. स. नि. क्षेत्र 5-आसिफाबाद (अ.ज.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र 6-खानापुर (अ.ज.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक |
| 7-आदिलाबाद वि. स. नि. क्षेत्र 8-बोध (अ.ज.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र 9-निर्मल वि. स. नि. क्षेत्र 10-मुधोले वि. स. नि. क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 2-पेड़डापल्ले (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | | |
| 2-चेन्नुर (अ. जा.) वि. स. नि. क्षेत्र 24-मन्थानी वि. स. नि. क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक |
| 3-बेल्लामपल्ली (अ.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र 4-मन्चेरियल वि. स. नि. क्षेत्र 22-धर्मापुरी (अ.जा.) वि.स. नि. क्षेत्र 23-रामागुन्डम वि. स. नि. क्षेत्र 25-पेड़डापल्ले वि.स.नि. क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 3-करीमनगर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 4-निजामाबाद | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 5-जहीराबाद | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 6-मैडक | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 7-मल्काजगिरि | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 8-सिकन्दराबाद | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 9-हैदराबाद | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |

| संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम | मतदान की तारीख | मतदान का समय |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 10-चेवेल्ला | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 11-महबूबनगर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 12-नगरकुरनूल (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | | |
| 82-अचम्पेट (अ.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र 83-कालवाकुरथी वि.स.नि. क्षेत्र 85-कोल्लापुर वि. स. नि. क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक |
| 78-वानापार्थी वि.स. नि. क्षेत्र 79-गडवाल वि.स. नि. क्षेत्र 80-आलमपुर (अ.जा.) वि.स.नि. क्षेत्र 81-नगरकुरनूल वि.स. नि. क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 13-नलगोन्डा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 14-भोगीर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 15-वारंगल (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | | |
| 108-मुपालपल्ले वि.स. नि. क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक |
| 99-घानपुर (स्टेशन) (अ.जा.) वि.स.नि. क्षेत्र 100-पालाकुरथी वि.स. नि. क्षेत्र 104-पारकल वि.स.नि. क्षेत्र 105-वारंगल पश्चिम वि.स.नि. क्षेत्र 106-वारंगल पूर्व वि.स.नि. क्षेत्र 107-वारधन्नापेट (अ.जा.) वि.स.नि. क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 16-महाबूबाबाद (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | | |
| 109-मुलुग (अ.ज.जा.) वि.स.नि. क्षेत्र 119-मद्राचलम (अ.ज.जा.) वि.स.नि. क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक |
| 101-दोरनाकल (अ.ज.जा.) वि.स.नि. क्षेत्र 102-महबूबाबाद (अ.ज.जा.) वि.स.नि. क्षेत्र 103-नरसामपेट वि.स.नि. क्षेत्र 110-पिनापाका (अ.ज.जा.) वि.स.नि. क्षेत्र 111-येल्लाण्डु (अ.ज.जा.) वि.स. नि. क्षेत्र | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 17-खम्माम | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 2-बिहार | | |
| 6-मधुबनी | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 7-झंझारपुर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 13-मधेपुरा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 14-दरभंगा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 23-समस्तीपुर (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 24-बेगूसराय | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 25-खगड़िया | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 3. गुजरात | | |
| 1-कच्छ (अ. जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 2-बनासकांठा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 3-पाटण | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 4-महेसाणा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 5-साबरकांठा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 6-गांधीनगर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 7-अहमदाबाद पूर्व | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 8-अहमदाबाद पश्चिम (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |

| संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम | मतदान की तारीख | मतदान का समय |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 9-सुरेन्द्रनगर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 10-राजकोट | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 11-पोरबंदर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 12-जामनगर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 13-जुनागढ़ | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 14-अमरेली | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 15-भावनगर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 16-आणंद | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 17-खेड़ा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 18-पंचमहल | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 19-दाहोड (अ.ज.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 20-वडोदरा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 21-छोटा उदपुर (अ.ज.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 22-भरुच | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 23-वारडोली (अ.ज.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 24-सुरत | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 25-नवसारी | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 26-वलसाड (अ.ज.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 4. जम्मू कश्मीर | | |
| 2-श्रीनगर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 5. पंजाब | | |
| 1-गुरदासपुर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 2-अमृतसर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 3-खडूर साहिब | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 4-जालंधर (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 5-होशियारपुर (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 6-आनन्दपुर साहिब | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 7-लुधियाना | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 8-फतेहगढ़ साहिब (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 9-फरीदकोट (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 10-फिरोजपुर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 11-भटिण्डा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 12-संगरूर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 13-पटियाला | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 6-उत्तर प्रदेश | | |
| 29-धौरहरा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 30-सीतापुर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 32-मिश्रिख (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 33-उन्नाव | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 34-मोहनलालगंज (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 35-लखनऊ | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 36-राय बरेली | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 43-कानपुर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 45-जालौन (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 46-झांसी | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 47-हमीरपुर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |

| संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम | मतदान की तारीख | मतदान का समय |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 48-बांदा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 49-फतेहपुर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 53-बाराबंकी (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 7-पश्चिम बंगाल | | |
| 25-हावड़ा | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 26-उलुबेरिया | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 27-श्रीरामपुर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 28-हुगली | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 29-आरामबाग (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 38-बर्धमान पूर्व (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 39-बर्धमान दुर्गापुर | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 41-बोलपुर (अ.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 42-बीरभूम | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 8-दादर और नागर हवेली | | |
| 1-दादर और नागर हवेली (अ.ज.जा.) | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |
| 9-दमन और दीव | | |
| 1-दमन और दीव | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक |

आदेश से,
सुमित मुखर्जी,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001/Dated 2nd April, 2014/
12 Chaitra, 1936 (Saka)*

No. 464/2014 (7)—**WHEREAS**, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 2nd April, 2014 (Wednesday), been pleased to call upon each of the Parliamentary constituencies, specified in column (1) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in the Schedule, to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Section 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the Parliamentary constituencies specified in the said Schedule,-

(a) **the 9th April, 2014 (Wednesday)**, as the last date for making nominations;

(b) **the 10th April, 2014 (Thursday)**, as the date for scrutiny of nominations;

(c) **the 12th April, 2014 (Saturday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;

- (d) the date, specified in column (2) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the Parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule; and
- (e) the 28th May, 2014 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned Parliamentary constituencies; and
- (B) Fixed the hours specified in Column (3) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (2) thereof, for the above election.

SCHEDULE
Parliamentary Constituency, Dates and Hours of Poll

| No. & Name of Parliamentary Constituency | Date of Poll | Hours of Poll |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1-ANDHRA PRADESH | | |
| 1-Andilabad (ST) Parliamentary Constituency | | |
| 1- Sirpur AC 5- Asifabad (ST) AC 6- Khanapur (ST) AC | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| 7- Adilabad AC 8- Boath (ST) AC 9- Nirmal AC 10- Mudhole AC | 30 th April, 2014 (Wednesday) 30 th April, 2014 (Wednesday) 30 th April, 2014 (Wednesday) 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 6:00 PM 07:00 AM to 6:00 PM 07:00 AM to 6:00 PM 07:00 AM to 6:00 PM |
| 2-Peddapalle (SC) Parliamentary Constituency | | |
| 2- Chennur (SC) AC 24- Manthani AC | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| 3- Bellampalli (SC) AC 4- Mancherial (SC) AC 22-Dharmapuri (SC) AC 23-Ramagundam AC 25- Peddapalle AC | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 3- Karimnagar | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 4-Nizamabad | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 5- Zahirabad | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 6- Medrak | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 7- Malkajgiri | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 8- Secunderabad | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 9- Hyderabad | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 10-Chevella | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 11-Mahbubnagar | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 12-Nagarkurnool (SC) Parliamentary Constituency | | |
| 82-Achampet (SC) AC 83-Kalwakurthy Ac 85-Kollapur AC | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 04:00 PM |

| No. & Name of Parliamentary Constituency | Date of Poll | Hours of Poll |
|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 78-Wanaparthy AC 79-Gadwal AC 80-Alampur (SC) AC 81-Nagarkurnool AC | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 13-Nalgonda | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 14-Bhongir | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 15-Warangal (SC) Parliamentary Constituency | | |
| 108-Bhupalpalle AC | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| 99-Ghanpur (Station) (SC) AC 100-Palakurthi AC 104-Parkal AC 105-Warangal West AC 106-Warangal East AC 107-Wardhannapet (SC) AC | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 16-Mahabubabad (ST) Parliamentary Constituency | | |
| 109-Mulug (ST) AC 119-Bhadrachalam (ST) AC | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| 101-Dornakal (ST) AC 102-Mahabubabad (ST) AC 103-Narsampet AC 110-Pinapaka (ST) AC 111-Yellandu (ST) AC | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 17-Khammam | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 2-BIHAR | | |
| 6-Madhubani | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 7-Jhanjharpur | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 13-Madhepura | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 14-Darbhanga | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 23-Samstipur (SC) | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 24-Begusarai | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 25-Khagaria | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |

| No. & Name of Parliamentary Constituency | Date of Poll | Hours of Poll |
|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 11-Bathinda | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 12-Sangrur | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 13-Patiala | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 6-UTTAR PRADESH | | |
| 29-Dhaurahra | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 30-Sitapur | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 32-Misrikh (SC) | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 33-Unnao | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 34-Mohanlalganj (SC) | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 35-Lucknow | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 36-Rae Bareli | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 43-Kanpur | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 45-Jalaun (SC) | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 46-Jhansi | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 47-Hamirpur | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 48-Banda | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 49-Fatehpur | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 53-Barabanki (SC) | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 7-WEST BENGAL | | |
| 25-Howrah | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 26-Uluberia | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 27-Sreerampur | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 28-Hooghly | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 29-Arambag (SC) | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 38-Bardhaman Purba (SC) | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 39-Bardhaman Durgapur | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 41-Bolpur (SC) | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 42-Birbhum | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00PM |
| 8-DADRA AND NAGAR HAVELI | | |
| 1-Dadra and Nagar Haveli | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| 9-DAMAN & DIU | | |
| 1-Daman & Diu | 30 th April, 2014 (Wednesday) | 07:00 AM to 06:00 PM |

By order,
SUMIT MUKHERJEE,
Secretary to the
Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 338-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>